

4425

12

5. किन्हीं चार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए : (4.5×4)

(क) निफ्टी

(ख) अल्पावधि पूंजीगत लाभ बनाम दीर्घावधि पूंजीगत लाभ

(ग) ओएफएस (बिक्री के लिए प्रस्ताव)

(घ) ट्रेडिंग खाता

(ङ) बाजार पूंजीकरण

(100)

[This question paper contains 12 printed pages.]

Your Roll No.....

Sr. No. of Question Paper : 4425

J

Unique Paper Code : 2414001006

Name of the Paper : Finance for Everyone

Name of the Course : **COMMON PROG GROUP
(GE) UGCF**

Semester : IV

Duration : 3 Hours

Maximum Marks : 90

Instructions for Candidates

1. Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.
2. Attempt **all** questions. **All** questions carry equal marks
3. Use of simple calculator is allowed
4. Use of scientific calculator is not allowed.
5. Answers may be written either in English or Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

P.T.O.

छात्रों के लिए निर्देश

1. इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए।
2. सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिये। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।
3. साधारण कैलकुलेटर उपयोग की अनुमति है।
4. वैज्ञानिक कैलकुलेटर उपयोग की अनुमति नहीं है।
5. इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।

1. (a) "Financial literacy is essential for making informed decisions, managing money wisely, and achieving financial stability."

In the context of the above statement, explain the importance of financial literacy with suitable examples. (8)

- (b) The details of Mr Abhishek and Mr. Vijay regarding their Sources of income and Expenses are as follows :

- (क) डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा में क्या अंतर है।
- (ख) कुछ स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के साथ-साथ उनके लाभों की व्याख्या करें। (9)
4. (क) म्यूचुअल फंड की अवधारणा की व्याख्या करें। साथ ही, म्यूचुअल फंड में निवेश के लाभों की व्याख्या करें? (9)
- (ख) टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान क्या है और टर्म लाइफ इंश्योरेंस के क्या लाभ हैं? (9)

या

- (क) "रक्षात्मक स्टॉक रूढ़िवादी निवेशकों के बीच लोकप्रिय हैं" बताइये कि कथन सत्य है या असत्य और क्यों? (9)
- (ख) प्राथमिक बाजारों और द्वितीयक बाजारों के बीच अंतर बताइये। (9)

(ख) अच्छा सिबिल स्कोर होने के क्या लाभ हैं?

(ग) कैशलेस बैंकिंग शब्द की व्याख्या करें, यह मोबाइल बैंकिंग से कैसे भिन्न है? (6)

या

किन्हीं तीन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए- (3×6)

(क) आरटीजीएस की अवधारणा और विशेषताओं की व्याख्या करें और यह ऐप आधारित भुगतान प्रणाली से कैसे भिन्न है? (10)

(ख) एटीएम का उपयोग करने के कुछ लाभों की व्याख्या करें। साथ ही, एटीएम का उपयोग करने से जुड़ी कमियाँ क्या हैं?

3. (क) पीपीएफ (पब्लिक प्रोविडेंट फंड) क्या है और इसके क्या लाभ हैं।

(ख) वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की अवधारणा और विशेषताएं भी समझाइये, इसके कुछ लाभों की व्याख्या करें।

या

Particulars	Mr. Abhishek	Mr. Vijay
Sources of Income		
Salary	Rs. 7,00,000	Rs. 5,00,000
Rent	Rs. 25,000	
Dividend		Rs. 50,000
Sale of Property	Rs. 50,000	
Maturity of Mutual Funds		Rs. 50,000
Expenses		
Housing	Rs. 2,00,000	Rs. 1,20,000
Vacation	Rs. 2,00,000	Rs. 1,50,000
Education	Rs. 1,50,000	Rs. 1,80,000
Personal	Rs. 75,000	Rs. 2,00,000

You are required to

(i) Define Budget Surplus and Budget Deficit.

(2)

- (ii) Calculate Budget Surplus/Deficit for both Mr. Abhishek and Mr. Vijay. (2)
- (iii) Explain the reason of Budget Surplus/Deficit for both Mr. Abhishek and Mr. Vijay. (2)
- (iv) Mention a few tips to reduce the Budget Deficit. (2)
- (v) Mention a few saving avenues in case of Budget Surplus. (2)

OR

- (a) Distinguish between Economic needs and wants and highlight the reason to differentiate between economic needs and wants. Support your answer with real life examples. (10)
- (b) What are the scope and Pre-requisites of Financial literacy? (8)

- (i) श्री अभिषेक तथा श्री विजय दोनों के लिए बजट अधिशेष/घाटे की गणना करें। (2)
- (iii) श्री अभिषेक तथा श्री विजय दोनों के लिए बजट अधिशेष/घाटे का कारण स्पष्ट करें। (2)
- (iv) बजट घाटे को कम करने के लिए कुछ सुझाव बताइये। (2)
- (v) बजट अधिशेष के मामले में कुछ बचत के उपाय बताइये। (2)

या

- (क) आर्थिक आवश्यकताओं और इच्छाओं के बीच अंतर करें और आर्थिक आवश्यकताओं और इच्छाओं के बीच अंतर करने के कारण पर प्रकाश डालिये। वास्तविक जीवन के उदाहरणों के साथ अपने उत्तर का समर्थन करें।
- (ख) वित्तीय साक्षरता के दायरे और पूर्व-आवश्यकताएँ क्या हैं?

2. (क) विभिन्न प्रकार के बैंक खातों पर चर्चा करें।

Particulars	Mr. Abhishek	Mr. Vijay
Sources of Income		
Salary	Rs. 7,00,000	Rs. 5,00,000
Rent	Rs. 25,000	
Dividend		Rs. 50,000
Sale of Property	Rs. 50,000	
Maturity of Mutual Funds		Rs. 50,000
Expenses		
Housing	Rs. 2,00,000	Rs. 1,20,000
Vacation	Rs. 2,00,000	Rs. 1,50,000
Education	Rs. 1,50,000	Rs. 1,80,000
Personal	Rs. 75,000	Rs. 2,00,000

आपसे अपेक्षित है कि आप

- (i) बजट अधिशेष तथा बजट घाटे को परिभाषित करें।
(2)

2. (a) Discuss the different type of Bank accounts.
(6)
- (b) What are the benefits of having a good CIBIL score?
(6)
- (c) Explain the term Cashless banking, how it is different from Mobile banking?
(6)

OR

Write short notes on any three – (3×6)

- (a) Explain the concept and features of RTGS and how is it different from app based payment system?
(10)
- (b) Explain some of the advantages using ATM. Also, what are the drawbacks associated with using an ATM?
3. (a) Explain what is PPF (Public Provident Fund) and what are its advantages
(9)

4425

6

- (b) Explain the concept and features of senior citizen savings scheme also, explain some of its advantages. (9)

OR

- (a) What is the difference between postal life insurance and rural postal life insurance. (9)
- (b) Explain some of the health Insurance plans along with their advantages (9)
4. (a) Explain the concept of Mutual Funds. Also, explain the advantages of investing in Mutual Funds? (9)
- (b) What is term life insurance plan and what are the advantages of term life insurance? (9)

OR

- (a) "Defensive stocks are popular among conservative investors" State whether the statement is true or False and why? (9)

4425

7

- (b) Differentiate between Primary markets and Secondary markets. (9)

5. Write short notes on any four (4.5×4)

- (a) NIFTY
- (b) Short term Capital Gains vs Long term capital gains
- (c) OFS (Offer for Sale)
- (d) Trading account
- (e) Market Capitalisation

1. (क) "वित्तीय साक्षरता सूचित निर्णय लेने, धन का बुद्धिमानी से प्रबंधन करने तथा वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।" उपर्युक्त कथन के संदर्भ में उपयुक्त उदाहरणों के साथ वित्तीय साक्षरता के महत्व की व्याख्या कीजिए। (8)

- (ख) श्री अभिषेक तथा श्री विजय के आय के स्रोतों तथा व्यय के बारे में विवरण इस प्रकार है :